



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13, 1979/पौष 23, 1900

No 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13, 1979/PAUSA 23, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संशोधन का प्रारूप

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1979

का. आ. 27(अ).—समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहृत) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 179(अ) तारीख 18 फरवरी, 1977 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), तारीख 18 फरवरी, 1977 के पृष्ठ 3 से तक पर प्रकाशित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण) नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण) नियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में उद्देशिक से पूर्व "तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों के संपत्ति के समपहृत के लिए अपील अधिकरण" शीर्षक के स्थान पर "समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण की प्रक्रिया के विनियमित करने वाले नियम" शीर्षक रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में :

(1) उपनियम (1) में "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से पूर्व अधिनियम की धारा 7 या धारा 9 की उपधारा (1) या धारा 10 के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(2) उपनियम (3) में खंड (क) में, परन्तु में "अजी" शब्द के स्थान पर "अपील" शब्द रखा जाएगा।

4. नियम, 7 में उपनियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) अपील रजिस्ट्रीकृत हो जाने के पश्चात्, अपील के ज्ञापन और उसके उपाबंधों की एक प्रति यथा संभव शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी को या तो पावती पत्र सहित रजिस्ट्री डाक से भेज कर या संवैशाहक के माध्यम से परिदत्त या निविदत्त करके, तामील की जाएगी।

- (2) पक्षकारों की अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान की सूचना या तो पावती पत्र सहित रीजस्ट्री डाक से दी जाएगी अथवा संदेशवाहक के माध्यम से सूचना तामील करा कर दी जाएगी :

परन्तु यदि पक्षकार अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों तो उन्हें अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान सूचित कर सकता हों।”

5. उक्त नियमों के नियम 12 में, परन्तुक में “अधिकरण खारिजी के आदेश को अथवा एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है” तथा अपील को उसकी मूल संख्या पर पुनः रख सकता है” शब्दों के स्थान पर, “अधिकरण प्रत्यर्थी को सूचना देने के पश्चात्, खारिजी के आदेश को अथवा एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त कर सकता है” तथा अपील को उसकी मूल संख्या पर पुनः रख सकता है”। शब्द रखे जाएंगे।

6. नियम 16 के स्थान पर, निम्नीलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

16 अपील की सुनवाई

“अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए अधिकरण के बैठने के स्थान को, खुला न्यायालय समझा जाएगा जहां साधारणतः जनता की पहुंच उस सीमा तक हो सकती है जिस तक कि वहां उसके लिए स्थान है” :

परन्तु अधिकरण, यदि वह ठीक समझे तो, अपील की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश कर सकेगा कि साधारण जनता, या कोई व्यक्ति विशेष, अधिकरण द्वारा उपयोग किए जा रहे कक्ष या भवन में नहीं जाएगा या वहां नहीं रहेगा या रुकेगा।”

[सं. 21/जेन./ए. टी. पी/78-79]

जी. सी. माथुर, अध्यक्ष,

समयहृत संपीत अपील अधिकरण

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY

NOTIFICATION

Delhi, the 13th January, 1979

S.O. 27(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 2 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Appellate Tribunal for Forfeited Property hereby makes the following Rules to amend the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977, published with the notification of the Government of India in the Department of

Revenue & Banking No S.O. 179(E), dated the 18th February, 1977, at pages 563 to 569 of the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3-Sub-section (ii), dated the 18th February, 1977, namely :—

1. (i) These rules may be called the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Amendment Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977 (hereinafter referred to as the said rules), before the preamble, for the heading “APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY OF SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS”, the heading “RULES TO REGULATE THE PROCEDURE OF THE APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY” shall be substituted.

3. In Rule 5 of the said rules :

(i) in sub-rule (1), after the words “competent authority” the words, figures and brackets “under section 7 or sub-section (1) of section 9 or section 10 of the Act” shall be inserted ;

(ii) in sub-rule (3), in clause (a), in the proviso, for the word “Application” the word “appeal” shall be substituted.

4. In Rule 7, for sub-rule (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

“(1) After an appeal is registered, one copy of the memorandum of appeal and annexures thereto shall be served as soon as possible on the competent authority either by registered post, acknowledgement due, or by delivering or tendering them to the said authority through messenger.

(2) The parties shall be informed of the date and place of hearing of the appeal either by registered post, acknowledgement due, or by notice served on them through messenger :

Provided that where the parties are present before the Tribunal, it may inform them the date and place of hearing of the appeal.”

5. In Rule 12 of the said rules, in the proviso, for the words “the Tribunal shall make an order”, the words “the Tribunal shall after giving notice to the respondent, make an order” shall be substituted.

6. For Rule 16, the following rules shall be substituted, namely :

16. Hearing of appeals :

“The places in which the Tribunal sits for the purpose of hearing appeals shall be deemed to be an open Court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them.

Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the hearing of an appeal, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Tribunal.”

[No. 21/Gen/ATFP/78-79]

JUSTICE G. C. MATHUR, Chairman